

## एक्वापोनक्स: भवषिय का एक वकिल्प

### चर्चा में क्यों?

एक्वापोनक्स (Aquaponics) पारस्थितिकी रूप से एक स्थायी मॉडल है जो एक्वाकल्चर (Aquaculture) के साथ हाइड्रोपोनक्स (Hydroponics) को जोड़ता है।

### मुख्य बदि

- एक्वापोनक्स में एक ही पारस्थितिकी-तंत्र में मछलियाँ और पौधे साथ-साथ वृद्धि कर सकते हैं।
- मछलियों का मल पौधों को जैविक खाद्य उपलब्ध कराता है जो मछलियों के लिये जल को शुद्ध करने का कार्य करता है और इस प्रकार एक संतुलित पारस्थितिकी-तंत्र का निर्माण होता है।
- तीसरा प्रतभागी यानि सूक्ष्मजीव या नाइट्राइजिगि बैक्टीरिया मछली के मल में उपस्थित अमोनिया को नाइट्रेट्स में परिवर्तित कर देता है जो कपौधों की वृद्धि के लिये आवश्यक है।

//

हाइड्रोपोनक्स  
(Hydroponics)

- हाइड्रोपोनक्स में पौधे मट्टी के बिना वृद्धि करते हैं जहाँ मट्टी को पानी द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है।

## एक्वाकल्चर प्रणाली

### (Aquaculture System)

- इस प्रणाली के तहत एक प्राकृतिक या कृत्रिम झील, ताजे पानी वाले तालाब या समुद्र में, उपयुक्त तकनीक और उपकरणों की आवश्यकता होती है।
- इस तरह की खेती में जलीय जंतुओं जैसे- मछली एवं मोलस्क का विकास, कृत्रिम प्रजनन तथा संग्रहण का कार्य किया जाता है।
- एक्वाकल्चर एक ही प्रजाति के जंतुओं की बड़ी मात्रा, उनके मांस या उप-उत्पादों के उत्पादन में सक्षम बनाता है।
- मत्स्य पालन इसका सर्वोत्तम उदाहरण है।

### एक्वापोनक्स के लाभ और खामियाँ

संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन (Food and Agriculture Organization -FAO) ने वर्ष 2014 में एक तकनीकी शोध-पत्र प्रकाशित किया जिसमें इन प्रणालियों के सकारात्मक और नकारात्मक परिणामों पर प्रकाश डाला गया है।

#### लाभ:

- उच्च पैदावार (20-25% अधिक) और गुणात्मक उत्पादन।
- गैर कृषियोग्य भूमि जैसे मरुस्थलीय, लवणीय, रेतीली, बरफीली भूमि का उपयोग किया जा सकता है।
- पौधों और मछलियों दोनों का उपयोग उपभोग एवं आय के सृजन में किया जा सकता है।

#### खामियाँ:

- मृदा उत्पादन अथवा हाइड्रोपोनक्स की तुलना में आरंभिक लागत बहुत महँगी है।
- मछली, बैक्टीरिया और पौधों की जानकारी आवश्यक है।
- अनुकूलतम तापमान (17-34 °C) की आवश्यकता होती है।
- छोटी-सी गलतियों और दुर्घटनाओं से सारा तंत्र नष्ट हो सकता है।
- यदि एकल रूप में (यानी एक स्थान पर केवल एक एक्वापोनक्स) उपयोग किया जाता है तो एक्वापोनक्स पूर्ण भोजन प्रदान नहीं करेगा।

### नाइट्रोजन चक्र:

- सभी जीवों के जीवन के लिये नाइट्रोजन एक प्राथमिक पोषक तत्त्व है।
- जीवित प्राणियों में कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के अतिरिक्त नाइट्रोजन प्रमुख तत्त्व है। नाइट्रोजन एमीनो अम्लों, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्लों, वृद्धि नियंत्रकों, परणहरतियों एवं बहुतायत वटामिनों का संघटक है। मृदा में उपस्थिति सीमिति नाइट्रोजन के लिये पादप सूक्ष्म जीवों से प्रतिस्पर्धा करते हैं, अतः नाइट्रोजन प्राकृतिक एवं कृषि पारितंत्र के लिये नियंत्रक पोषक तत्त्व है।
- नाइट्रोजन गैस का बड़ी मात्रा में रूपांतरण नमिन क्रियावधिके अनुसार होता है:
  - नाइट्रोजन स्थिरीकरण Nitrogen fixation (nitrogen gas to ammonia),
  - नाइट्रोजनीकरण Nitrification (ammonia to nitrite and nitrate),
  - वनाइट्रिकरण Denitrification (nitrate to nitrogen gases)
- नाइट्रोजन में दो नाइट्रोजन परमाणु शक्तिशाली त्रिसिहसंयोजी आबंध से जुड़े रहते हैं, N≡N नाइट्रोजन (N<sub>2</sub>) के अमोनिया में बदलने की प्रक्रिया को नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं।
- प्रकृति में बजिली चमकने से और पराबैंगनी विकिरणों द्वारा नाइट्रोजन को नाइट्रोजन ऑक्साइड (NO<sub>2</sub>) में बदलने के लिये ऊर्जा प्राप्त होती है।
- औद्योगिकी दहन, जंगल में लगी आग, वाहनों का धुँआ तथा बजिली उत्पादन केंद्र भी वातावरणीय नाइट्रोजन ऑक्साइड के स्रोत हैं। मृत पादपों व जंतुओं में उपस्थिति कार्बनिक नाइट्रोजन का अमोनिया में अपघटन अमोनीकरण कहलाता है। इसमें से कुछ अमोनिया वाष्पीकृत होकर पुनः वायुमंडल में लौट जाती है, लेकिन अधिकांश मृदा में उपस्थिति सूक्ष्मजीवों द्वारा नमिन अनुसार नाइट्रेट में बदल दी जाती है:

### नाइट्रोजनीकरण

#### (Nitrification)

- नाइट्रोजनीकरण वह प्रक्रिया है जो अमोनिया को नाइट्राइट और फिर नाइट्रेट में परिवर्तित करती है।
- अधिकांश नाइट्रोजनीकरण वायवीय रूप से होते हैं और नाइट्रोजनीकरण के दो अलग-अलग चरण होते हैं जो विभिन्न प्रकार के सूक्ष्मजीवों द्वारा संपन्न होते हैं।
- पहला चरण अमोनिया का नाइट्राइट में ऑक्सीकरण है, जो कि अमोनिया ऑक्सीकारक माइक्रोव्स द्वारा किया जाता है।
- नाइट्रोजनीकरण में दूसरा चरण नाइट्राइट (NO<sub>2</sub>-) का नाइट्रेट (NO<sub>3</sub>-) में ऑक्सीकरण है। यह कदम प्रोक्वैरियोट्स (एक एककोशिकीय जीव) से

पूरी तरह से अलग समूह द्वारा किया जाता है, जिसे नाइट्राइट-ऑक्सीकरण बैक्टीरिया के रूप में जाना जाता है।

**स्रोत: द हट्टि**

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/why-aquaponics-is-the-future>

